



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102023-249243
CG-DL-E-07102023-249243

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4188]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 6, 2023/आश्विन 14, 1945

No. 4188]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2023/ASVINA 14, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4359(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3534 तारीख 08/08/2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के भागलपुर जिले में NH80 के कि.मी. 155 से कि.मी.155 (गेरुआ नदी पर निर्मित उच्च स्तरीय पुल के पहुँच पथ निर्माण) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "23.08.2023 " को "प्रभात खबर" और "दैनिक भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य के भागलपुर जिले में NH80 के कि.मी. 155 से कि.मी.155 (गेरुआ नदी पर निर्मित उच्च स्तरीय पुल के पहुँच पथ निर्माण) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: बिहार			जिले का नाम: भागलपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कोलगंग					
गांव का नाम: परमानंदपुर खवास					
1	१८७५	निजी	धनहर	0.08505	आनन्द रंजन सिंह पिता स्व० अनिरुद्ध प्रसाद सिंह 1875 ANSH
2	१८७७	निजी	धनहर	0.09315	आनन्द रंजन सिंह पिता स्व० अनिरुद्ध प्रसाद सिंह 1877 ANSH
3	१८८०	निजी	धनहर	0.00405	आनन्द रंजन सिंह पिता स्व० अनिरुद्ध प्रसाद सिंह 1880 ANSH
कुल योग				0.18225	

[फा. सं. RW/PAT/NH-80/Km 55/Gerua/LA/2023/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2023

S.O. 4359(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **3534 Dated:08/08/2023**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.),

Maintenance, management and operation of NH80 in the stretch of land from Km. 155 to Km. 155 (Construction of two lane PSC HL bridge with footpath across river Gerua) in the district of BHAGALPUR in the state of BIHAR.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Prabhat Khabar**” and “**Dainik Bhaskar**” both dated 23.08.2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH80 in the stretch of land from Km. 155 to Km. 155 (Construction of two lane PSC HL bridge with footpath across river Gerua) in the district of BHAGALPUR in the state of BIHAR.

State: BIHAR			District: BHAGALPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kolgang					
Village: Parmanandpur Khawas					
1	1875	Private	DHANHAR	0.08505	ANAND RANJAN SINGH S/O LATE ANIRUDH PRASAD SINGH 1875 ANSH
2	1877	Private	DHANHAR	0.09315	ANAND RANJAN SINGH S/O LATE ANIRUDH PRASAD SINGH 1877 ANSH
3	1880	Private	DHANHAR	0.00405	ANAND RANJAN SINGH S/O LATE ANIRUDH PRASAD SINGH 1880 ANSH
Total				0.18225	

[F. No. RW/PAT/NH-80/Km 55/Gerua/LA/2023/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.